

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर 2014—आश्विन 3, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972, (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा कृषि उपज मण्डी समिति होशंगाबाद एवं कृषि उपज मण्डी समिति बाबई, जिला होशंगाबाद में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिये निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

कृषि उपज मण्डी समिति होशंगाबाद

- | | |
|--|------------------------|
| 1. श्रीमती जानकी मीना (पूर्व निर्वाचित) | अध्यक्ष/कृषक प्रतिनिधि |
| 2. श्री राजेश सिंह राठौर (पूर्व निर्वाचित) | व्यापारी प्रतिनिधि |
| 3. श्रीमती रश्मिका दीवान (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 4. श्रीमती सुदामा बाई (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 5. श्री संतोष राजवंशी (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 6. श्री जय प्रकाश पटेल (पूर्व निर्वाचित) | कृषक प्रतिनिधि |
| 7. श्री विजयराम मीना (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री सीताराम मीना, निवासी रंड़ाल. | कृषक प्रतिनिधि |
| 8. श्री नरेन्द्र पटेल (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री बालचंद पटेल निवासी खोजनपुर. | कृषक प्रतिनिधि |
| 9. श्री महेश कुमार पटेल (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री धूरीलाल पटेल निवासी पथौड़ी. | कृषक प्रतिनिधि |
| 10. श्री विकास मालवीय (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री फूलचंद मालवीय निवासी रायपुर. | कृषक प्रतिनिधि |
| 11. श्री चिमन पटेल (नाम निर्दिष्ट)
पिता-श्री ताराचंद पटेल निवासी साकेत. | कृषक प्रतिनिधि |

12. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (पदेन सदस्य)
13. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. (पदेन सदस्य)
14. कृषि विभाग का एक अधिकारी. (पदेन सदस्य)
15. मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य. [मंडी अधिनियम की धारा 72 (4) (ड) के अनुसार].
16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष. (पदेन सदस्य)
17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष. (पदेन सदस्य)
18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन सदस्य)

कृषि उपज मण्डी समिति बाबई

1. श्री राजेन्द्र चौधरी (पूर्व निर्वाचित) अध्यक्ष/कृषक प्रतिनिधि (नाम निर्दिष्ट)
2. श्री जालम सिंह (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
3. श्रीमती शीला यादव (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
4. श्रीमती संतोष तिवारी (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
5. श्री गुलाब सिंह (पूर्व निर्वाचित) कृषक प्रतिनिधि
6. श्री घनश्याम मालवीय (पूर्व निर्वाचित) तुलैया/हम्माल प्रतिनिधि
7. श्री ब्रजमोहन मीना (नाम निर्दिष्ट) कृषक प्रतिनिधि
पिता-श्री सीताराम मीना निवासी काजलखेड़ी.
8. श्री केतार सिंह (नाम निर्दिष्ट) कृषक प्रतिनिधि
पिता-श्री गुलाब सिंह निवासी आरी.
9. श्री लक्ष्मीनारायण कीर (नाम निर्दिष्ट) कृषक प्रतिनिधि
पिता-श्री रामलाल निवासी रजौन.
10. श्री सत्यनारायण (नाम निर्दिष्ट) कृषक प्रतिनिधि
पिता-श्री सुंदरलाल पाराशर निवासी बीकोर.
11. श्री फूलचंद यादव (नाम निर्दिष्ट) कृषक प्रतिनिधि
पिता-श्री प्रहलाद सिंह यादव निवासी आंचलखेड़ा.
12. श्री गोपाल माहेश्वरी (नाम निर्दिष्ट) व्यापारी प्रतिनिधि
पिता-श्री बंशीधर माहेश्वरी निवासी बाबई.
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो. (पदेन सदस्य)
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि. (पदेन सदस्य)
15. कृषि विभाग का एक अधिकारी. (पदेन सदस्य)
16. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष. (पदेन सदस्य)
17. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष. (पदेन सदस्य)
18. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य. (पदेन सदस्य)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th September, 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby constitutes the following Committee-in-charge for Krishi Upaj Mandi Samiti, Hoshangabad and Krishi Upaj Mandi Samiti, Babai, District Hoshangabad till constitution of the committee through election:—

Krishi Upaj Mandi Samiti, Hoshangabad

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Smt. Janki Meena (previously elected) | Chairman/Farmer Representative |
| 2. Shri Rajesh Singh Rathore (previously elected) | Traders Representative |
| 3. Smt. Rashmika Deewan (previously elected) | Farmer Representative |
| 4. Smt. Sudama Bai (previously elected) | Farmer Representative |
| 5. Shri Santosh Rajwanshi (previously elected) | Farmer Representative |
| 6. Shri Jai Prakash Patel (previously elected) | Farmer Representative |
| 7. Shri Vijay Ram Meena (Nominated)
S/o Shri Sitaram Meena, Resident of Randhal. | Farmer Representative |
| 8. Shri Narendra Patel (Nominated)
S/o Shri Balchand Patel, Resident of Khojanpur. | Farmer Representative |
| 9. Shri Mahesh Kumar Patel (Nominated)
S/o Shri Dhurilal Patel, Resident of Pathodi. | Farmer Representative |
| 10. Shri Vikas Malviya (Nominated)
S/o Shri Phoolchand Malviya, Resident of Raipur. | Farmer Representative |
| 11. Shri Chiman Patel (Nominated)
S/o Shri Tarachand Patel, Resident of Saket. | Farmer Representative |
| 12. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh who is elected from the district. | (Ex-officio Member) |
| 13. A Representative from Marketing Society | (Ex-officio Member) |
| 14. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department. | (Ex-officio Member) |
| 15. A member from License holder Weighman and Hammal of Mandi Samiti. (According to section 72 (4) (e) of Mandi act) | |
| 16. Chairman of District Central Cooperative Bank | (Ex-officio Member) |
| 17. Chairman of District Land Development Bank | (Ex-officio Member) |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat. | (Ex-officio Member) |

Krishi Upaj Mandi Samiti, Babai

- | | |
|--|--|
| 1. Shri Rajendra Choudhary (previously elected) | Chairman/Farmer Representative (Nominated) |
| 2. Shri Jalam Singh (previously elected) | Farmer Representative |
| 3. Smt. Sheela Yadav (previously elected) | Farmer Representative |
| 4. Smt. Santosh Tiwari (previously elected) | Farmer Representative |
| 5. Shri Gulab Singh (previously elected) | Farmer Representative |
| 6. Shri Ghanshyam Malviya (previously elected) | Wighman and Hammal Representative |
| 7. Shri Brijmohan Meena (Nominated)
S/o Shri Sitaram Meena, Resident of Kajalkhede. | Farmer Representative |
| 8. Shri Ketar Singh (Nominated)
S/o Shri Gulab Singh, Resident of Aari. | Farmer Representative |
| 9. Shri Laxminarayan Keer (Nominated)
S/o Shri Ramlal, Resident of Rajjon. | Farmer Representative |
| 10. Shri Satyanarayan (Nominated)
S/o Shri Sunderlal Parasar, Resident of Bikor | Farmer Representative |

-
- | | |
|---|-----------------------|
| 11. Shri Phoolchand Yadav (Nominated)
S/o Shri Prahalad Singh Yadav, Resident of Aanchalkheda. | Farmer Representative |
| 12. Shri Gopal Maheshwari (Nominated)
S/o Shri Bansidhar Maheshwari, Resident of Babai. | Trader Representative |
| 13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh
who is elected from the district. | (Ex-officio Member) |
| 14. A Representative from Marketing Society | (Ex-officio Member) |
| 15. An Officer from Farmer Welfare and Agriculture
Development Department. | (Ex-officio Member) |
| 16. Chairman of District Central Co-operative Bank | (Ex-officio Member) |
| 17. Chairman of District Land Development Bank | (Ex-officio Member) |
| 18. A Member from Village Panchayat or Janpad Panchayat
or District Panchayat. | (Ex-officio Member) |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.